

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 530]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2010

फा. क्र.-17(ई)-181-10-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, भिण्ड, सिवनी तथा भोपाल जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 30-9-2010 से 5-10-2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. जे. खान, सचिव.

#### जिला—टीकमगढ़

1. श्री राकेश कुर्मी, जिला आबकारी अधिकारी, टीकमगढ़.
2. श्री ए. के. उपाध्याय, उपवन मंडलाधिकारी, टीकमगढ़.
3. श्री आर. पी. सिंह, उपवन मंडलाधिकारी निवाड़ी.
4. श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, जिला टीकमगढ़.
5. श्री ए. एस. लहगरे, वनक्षेत्रपाल, टीकमगढ़.
6. श्री आर. के. थापक, वनक्षेत्रपाल, जतारा.
7. श्री मुकुन्द सिंह, वनक्षेत्रपाल निवाड़ी.
8. श्री बी. एस. बरकड़े, वनक्षेत्रपाल निवाड़ी.
9. श्री जे. पी. रावत, वनक्षेत्रपाल, ओरछा.
10. श्री आशकृत तिवारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, टीकमगढ़.
11. श्री वीरेन्द्र कुमार कोरी, अधीक्षक, भू-अभिलेख, टीकमगढ़.
12. श्री जे. पी. मेहरा, अधीक्षक, भू-अभिलेख, टीकमगढ़.
13. श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बल्देवगढ़.
14. श्री ओ. पी. दुबे, सहायक यंत्री, रोजगार गारन्टी जनपद पंचायत, बल्देवगढ़.
15. श्री वीरेन्द्र पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, निवाड़ी.
16. श्री चन्द्रसेन सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जतारा.

17. श्री सिद्ध गोपाल वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पलेरा.
18. श्री एल. एन. विश्वकर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पृथ्वीपुर.
19. श्री एम. के. द्विवेदी, जिला रोजगार अधिकारी टीमकगढ़.
20. श्री आर. एन. अग्निहोत्री, सहायक संचालक मत्स्य टीमकगढ़.
21. श्री एस. के. पाण्डे कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टीमकगढ़.
22. श्री एस. एस. बुन्देला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत बड़गांव (धसान)
23. श्री रमेश भार्गव मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, तरीचरकला.
24. श्री आर. एस. अवस्थी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, बल्देवगढ़.
25. श्री के. पी. त्रिपाठी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, कारी.
26. श्री राकेश पाठक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, पलेरा.
27. श्री एम. एल. चतुर्वेदी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, जेरौन.
28. श्री हरगोविन्द खरे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, निवाड़ी.
29. श्री प्रताप सिंह खेंगर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, लिधौरा.
30. श्री जगमोहन शुक्ला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, जतारा.
31. श्री के. के. ओझा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत, ओरछा.

### कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला-भिण्ड, मध्यप्रदेश

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अर्जुन सिंह डाबर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड.	राज्य प्रशासनिक सेवा	सम्पूर्ण जिला भिण्ड
2	श्री आर. एन. गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अटेर.	जनपद पंचायत, अटेर	संपूर्ण जिला भिण्ड
3	श्री शकील कुरैशी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रौन.	जनपद पंचायत, रौन	संपूर्ण जिला भिण्ड
4	श्री अतुल सक्सेना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मेहगांव.	जनपद पंचायत, मेहगांव	संपूर्ण जिला भिण्ड
5	श्री एस. जी. अग्रवाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भिण्ड.	जनपद पंचायत, भिण्ड	संपूर्ण जिला भिण्ड
6	श्री रविकान्त गोस्वामी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गोहद.	जनपद पंचायत, गोहद	संपूर्ण जिला भिण्ड
7	श्री अशोक शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, लहार.	जनपद पंचायत, लहार	संपूर्ण जिला भिण्ड
8	श्री आर. एन. मिश्रा	अधीक्षक, भू-अभिलेख, भिण्ड	भू-अभिलेख, भिण्ड	संपूर्ण जिला भिण्ड
9	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, भिण्ड	भू-अभिलेख, भिण्ड	संपूर्ण जिला भिण्ड
10	श्री फूलसिंह जादौन	सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भू-अभिलेख तहसील, लहार.	भू-अभिलेख तहसील लहार.	संपूर्ण जिला भिण्ड
11	देवसिंह तोमर	सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भू-अभिलेख तहसील, मेहगांव.	भू-अभिलेख तहसील मेहगांव.	संपूर्ण जिला भिण्ड
12	देवनारायण शर्मा	सहायक बंदोबस्त अधिकारी, भू-अभिलेख तहसील, गोहद.	भू-अभिलेख तहसील, गोहद.	संपूर्ण जिला भिण्ड

**कलेक्टर, सिवनी**

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दी जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रमेश कुमरे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
2	श्री फुलेराम इनवाती	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
3	श्री बी. एल. पाटिलकर	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
4	श्री प्रेमचंद मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
5	श्री आनन्दीलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
6	श्री साधूलाल रांहगडाले,	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
7	श्री गणवीर	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
8	श्री ध्यानसिंह धुर्वे	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
9	श्री सुखलाल पटले	राजस्व निरीक्षक, नजूल कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
10	श्री रामकुमार अवस्थी	राजस्व निरीक्षक, भू-अभिलेख, कार्या. कले., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
11	श्री रामकृष्ण साहू	राजस्व निरीक्षक, व्यपवर्तन कार्या., अ.वि.अ., सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	अतिरिक्त
12	श्री सुरेश साहू	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल सिवनी, भाग-2.
13	श्री भूरे खान	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल सिवनी, भाग-1.
14	श्री राजेन्द्र भगत	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल भोमा.
15	श्री राजेन्द्र तेकाम	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, सिवनी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल बंडोल.
16	श्री रामकुमार सराटे	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, लखनादौन.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल लखनादौन.
17	श्री देवीलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, छपारा.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल छपारा जिला सिवनी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	श्री सीताराम साहू	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, बरघाट.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल बरघाट जिला सिवनी.
19	श्री लक्ष्मण प्रसाद मेश्राम	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, बरघाट.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल गंगेरूआ तह., बरघाट जिला सिवनी.
20	श्री टीकाराम रांहगडाले	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, कुरई.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल कुरई तह., कुरई जिला सिवनी.
21	श्री कमल साहू	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, कुरई.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल सुकतरा तह., कुरई जिला सिवनी.
22	श्री श्याम सेठ राय	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, केवलारी	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल पलारी तह., केवलारी जिला सिवनी.
23	श्री केसीराम चौकसे	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, केवलारी.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल उगली तह., केवलारी जिला सिवनी.
24	श्री यासीन कुरैशी	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, घंसौर	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल धनोरा तह., घंसौर जिला सिवनी.
25	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, घंसौर	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल कहानी तह., घंसौर जिला सिवनी.
26	श्री शिवचरण कौशले	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, घंसौर	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल घंसौर तह., घंसौर जिला सिवनी.
27	श्री भगवान दास यादव	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, लखनादौन.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल धूमा तह., लखनादौन जिला सिवनी.
28	श्री पन्नलाल यादव	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, लखनादौन.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल आदेगांव तह., लखनादौन, जिला सिवनी.
29	श्री रामेश्वर भोंवरे	राजस्व निरीक्षक, कार्या. तहसीलदार, लखनादौन.	राज्य शासन, सेवा संवर्ग	राजस्व निरीक्षक, मण्डल आदेगांव तह., लखनादौन, जिला सिवनी.

### जिला-भोपाल

1. श्री नागेश कुमार सिंह, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
2. श्री राजीव नंदन श्रीवास्तव, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
3. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
4. श्री कमल सिंह वर्मा, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
5. श्री लुहार सिंह चीचाम, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
6. श्रीमती रमीला, अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
7. श्री अमृतलाल धावरे, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
8. श्री नारायण आचवल, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.
9. श्री धीरेन्द्र कौशल, सहा. अधीक्षक, भू-अभिलेख, भोपाल.